



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1944 (श10)
(सं0 पटना 660) पटना, शुक्रवार, 2 सितम्बर 2022

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

1 सितम्बर 2022

सं० प्र०/ऊर्जा DDUGJY-01/2015/10—विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक—F.No.-42/17/2011-RE (206787) दिनांक—16.09.2021 के आलोक में ऊर्जा प्रक्षेत्र के सभी केन्द्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन, सतत् अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु जन प्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तरीय विद्युत समिति (District Electricity Committee) निम्नवत् गठित की जाती है:—

1.	जिले के वरीयतम माननीय सांसद	अध्यक्ष
2.	जिले के अन्य माननीय सांसद	उपाध्यक्ष
3.	जिलाधिकारी	संयोजक (convenor)
4.	जिला परिषद् के माननीय अध्यक्ष	सदस्य
5.	जिले के सभी माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा	सदस्य
6.	जिले में कार्यरत विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के केन्द्रीय उपक्रमों के वरीयतम प्रतिनिधि अथवा उनके द्वारा संबंधित जिलों के लिए नामित पदाधिकारी	सदस्य
7.	संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी के विद्युत आपूर्ति अंचल के विद्युत अधीक्षण अभियंता	सदस्य—सचिव

जिला स्तरीय विद्युत समिति (District Electricity Committee) के कार्य निम्नवत् होंगे:—

- (1) जिला के विद्युत संरचना के निर्माण कार्य का सतत् अनुश्रवण एवं समन्वय स्थापित करना।
- (2) सभी केन्द्रीय परियोजनाओं की कार्य प्रगति एवं गुणवत्ता की समीक्षा करना।
- (3) विद्युत संरचना एवं विद्युत नेटवर्क की प्रगति की समीक्षा दिन-प्रतिदिन ओ0 एण्ड एम0 के कार्यों हेतु नये विद्युत संरचना के निर्माण को चिन्हित करना।

- (4) विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता की समीक्षा करना।
- (5) विद्युत उपभोक्ताओं को मानक अनुसार विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता की समीक्षा करना।
- (6) विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त शिकायतों के निवारण की समीक्षा एवं अन्य संबंधित विषयों की समीक्षा करना।

उक्त समिति की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार जिला मुख्यालय में आहूत की जायेगी एवं समिति की बैठक ससमय आहूत करने एवं ससमय बैठक का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संयोजक एवं सदस्य-सचिव की होगी।

इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-DDUGJY-01/2015-05 दिनांक-20.05.2015 अवक्रमित समझे जायेंगे।

आदेश से,
संजीव हंस,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 660-571+100-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>